

**\*प्रेस नोट सराहनीय कार्य जनपद अमरोहा\***

**\*दिनांक 27.01.2023\***

**\*थाना गजरौला पुलिस द्वारा 25,000/- रुपये इनामी वांछित शातिर अपराधी/लूटेरा गिरफ्तार, अवैध असलाह (तमंचा/कारतूस) व लूटी हुई नगदी बरामद\* ।**

पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री आदित्य लंगेह के कुशल निर्देशन एवं मार्गदर्शन में, अपर पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री राजीव कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी मंडी धनौरा श्री अरुण कुमार सिंह के निकट पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाए जाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना गजरौला पुलिस द्वारा ₹25000/- इनामी वांछित शातिर अपराधी/लूटेरा गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध असलाह व लूट की घटनाओं से संबंधित 9200/- रुपये नगद बरामद हुए।

**\*संक्षिप्त विवरण\*:-** अवगत कराना है कि कल दिनांक 26/27.01.2023 की रात्रि थाना गजरौला पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान सूचना पर बसैली तिराहे से अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर पुत्र मोमिन निवासी ग्राम शाहपुर उर्फ सहाबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध असलाह एक तमंचा व एक ज़िंदा कारतूस 315 बोर व लूट की घटनाओं से संबंधित 9200/- रुपये नगद बरामद हुए। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना गजरौला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर थाना नौगावां सादात पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 409/22 धारा 395/397/412 भादवि में वांछित चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000/- रुपये का इनाम घोषित किया गया था\* ।**



**\*पूछताछ विवरण\*:-** पूछताछ पर अभियुक्त अजरुद्दीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर सेक्टर 62 में रात करीब 10 बजे एक व्यक्ति को गजरौला के लिए कह कर होंडा xcent गाड़ी में लिफ्ट देकर बैठा लेने तथा उसे डरा धमकाकर बंधक बनाकर 3000 रुपये छीन लेना तथा उसके 02 ATM कार्ड छीनकर पिन कोड मालूम कर कस्बा गजरौला में ICICI ATM से 50,000/- रुपये निकाल लेना बताया गया उक्त घटना के संबंध में थाना गजरौला पर मु0अ0सं0 713/22

धारा 392/342/506/411 भादवि पंजीकृत है। बरामद 4200/- रुपये उसी लूट की घटना से संबंधित होना बताया गया। अभियुक्त अजरुद्धीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर थाना नौगावा सादात क्षेत्र के ग्राम मिठनपुर में लूट की घटना करना और बरामद 5000/- रुपये उसी घटना से संबंधित होना बताया गया। उक्त घटना के संबंध में थाना नौगावा सादात पर मु0अ0सं0 409/22 धारा 395/397/412 भादवि पंजीकृत है।

**\*गिरफ्तार अभियुक्त अजरुद्धीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरुद्ध लूट आदि से संबंधित 06 अभियोग पंजीकृत है। शेष अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है\*।**

**\*गिरफ्तार अभियुक्त\*:-**

1. अजरुद्धीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर नि0 ग्राम शाहपुर उर्फ साहबपुर थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

**\*बरामदगी\*:-**

1. अवैध असलाह तमंचा 315 बोर व एक कारतूस जिन्दा 315 बोर।

2. 4200/- रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 713/22 धारा 392/342/506/411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा)

व 5,000/- रुपये (सम्बन्धित मु0अ0सं0 409/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा )

कुल 9200/- रुपये नगद।

**\*अपराधिक इतिहास अभियुक्त अजरुद्धीन उर्फ अज्जू उर्फ अजहर\*:-**

1. मु0अ0सं0 591/21 धारा 392/411/420/465/482 भादवि थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

2. मु0अ0सं0 625/21 धारा 414/420/465/482 भादवि थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

3. मु0अ0सं0 24/22 धारा 3/25/27 आयुध अधि0 थाना थाना हापुड देहात जनपद हापुड।

4. मु0अ0सं0 409/22 धारा 395/397/412 भादवि थाना नौगावा सादात जनपद अमरोहा

5. मु0अ0सं0 713/22 धारा 392/342/506/411 भादवि थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

6. मु0अ0सं0 69/23 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

**\*गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम\*:-**

1. प्रभारी निरीक्षक अरिहन्त कुमार सिद्यार्थ थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

2. उ0नि0 मनोज बाबू थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

3. उ0न0 प्रविन्द्र कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

4. हे0 का0 28 विपिन कुमार थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

5. का0 236 विशाल सहरावत थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

6. का0 401 टिंकू थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

7. का0 चा0 1204 कुलदीप थाना गजरौला जनपद अमरोहा।

**\*PRO CELL AMROHA\***